

## प्रेस नोट दिनांक-09.10.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 03 किलो गांजा बरामद किया।

(क). उ0नि0 श्री शिशिर कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा शंकर बाजार कर्वी से अभियुक्त राजेश धतुरहा उर्फ राजू उर्फ महाकाल पुत्र ओमकार धतुरहा निवासी जगदीशगंज थाना कोतवाली कर्वी को 01 किलो 400 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

01 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री शिशिर कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी

2. उ0नि0 श्री अमित चौहान

(ख). वरि0उ0नि0 श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा पतेरिया मोड़ से अभियुक्त जितेन्द्र कुमार उर्फ बरातीलाल पुत्र छोटेलाल पयासी निवासी कटहापुरवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 600 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

600 ग्राम अवैध गांजा

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर

2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार साहू

2. आरक्षी रोहित सिंह

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरूकता एवं चैकिंग अभियान में दिनांक 08.10.2020 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना कोतवाली कर्वी में 05 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी। जनपदवासियों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करें।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री के.के. मिश्रा प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर के मार्गदर्शन में आरक्षी अरविन्द मौर्या तथा आरक्षी सतीश कुमार द्वारा हल्दी डांडी के जंगलों से अभियुक्त रामआसरे पुत्र जमुना प्रसाद निवासी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट को 01 अदद तमंचा कारतूस व 04

अदद जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

01 अदद तमंचा कारतूस व 04 अदद जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. आरक्षी अरविन्द कुमार मौर्य थाना मानिकपुर
2. आरक्षी सतीश कुमार